



भारत में कुछ लोगों को ही अवसर मिलने का कहानी अब अब बदल चुकी है: चंद्रशेखर

By PTI | नयी दिल्ली | 2022-04-25T21:03:05+05:30



25 अप्रैल (भाषा) केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सोमवार को कहा कि भारत में सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही अवसर होने की पुरानी कहानी अब बदल चुकी है और पुराने कारोबारी समूहों से एकदम अलग नई कंपनियों के जगह बनाने से इसकी झलक भी मिलती है।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री चंद्रशेखर ने पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया (पीएफआई) के एक कार्यक्रम में कहा कि भारत में जाति के आधार पर विभाजन होने के कारण केंद्र में हमेशा एक कमजोर सरकार रही जिसके मूल में परस्पर-विरोधी हितों वाला गठबंधन होता था।

उन्होंने कहा कि नब्बे के दशक की शुरुआत में यह आख्यान गढ़ा गया था कि भारत में अवसर कुछ ही लोगों के लिए हैं।

उन्होंने कहा, “वह कहानी 2010-12 तक चलती रही। एक रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत के बैंकों ने 97 फीसदी कर्ज नौ कारोबारी समूहों को दिए थे। वह एक तरह से पूंजी को एक तरफ ढकेलने की कोशिश थी। जिसमें कुछ ही लोगों के बीच अवसरों का संकेंद्रण था। वह कई दशकों से भारत की एक निहित कहानी थी लेकिन आज वह बदल चुकी है।”

उन्होंने कहा कि आज यूनिकॉर्न, स्टार्टअप एवं उद्यम के क्षेत्र में बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अपने परिवार में पहली पीढ़ी के उद्यमी हैं और उनके साथ कोई बड़ा पारिवारिक नाम नहीं जुड़ा है।

चंद्रशेखर ने कहा, “हमने एक राष्ट्र के रूप में यह साबित कर दिया है कि हम मजबूत सरकार में एक मूल्य देखते हैं और आर्थिक विकास के साथ इसका सीधा मौका है।”

उन्होंने कहा कि इस समय करीब 80 करोड़ भारतीय ऑनलाइन मंचों पर हैं और वित्त वर्ष 2024-25 तक यह संख्या 1.2 अरब तक पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि भारतनेट अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है और 5जी एवं अन्य वायरलेस मोबिलिटी

उत्पाद भी बाजार में आ गए हैं।

भाषा प्रेम अजय



ताजा खबर

- मप्र में 5.21 लाख लोगों को सौंपे गए आवास
- महाराष्ट्र के सरकारी दफ्तरों में अब मराठी अनिवार्य
- मप्र बजट: सबको साधने का प्रयास
- एलआईसी आईपीओ को सोमवार को सेबी की मंजूरी!
- कहां है नियम आधारित विश्व व्यवस्था?

बाजार

- बाजार को महंगाई व कोविड का डर
- एसयूवी पर सवार होने की तैयारी में मारुति सुजूकी
- यातायात अधिकारों में प्राथमिकता को नुकसान
- महंगी लक्जरी कारों की मांग में उछाल
- नए नियमों से एचएनआई के दांव में आएगा बदलाव

कंपनियां

- बाजार को महंगाई व कोविड का डर
- एसयूवी पर सवार होने की तैयारी में मारुति सुजूकी
- यातायात अधिकारों में प्राथमिकता को नुकसान

- महंगी लकजरी कारों की मांग में उछाल
- नए नियमों से एचएनआई के दांव में आएगा बदलाव

अर्थव्यवस्था और नीति

- नीतिगत दरों में बढ़ोतरी विदेशी निवेशकों को लाभ पहुंचाने वाली राष्ट्र विरोधी गतिविधि जैसी नहीं : राजन
- राजस्व साझा करने की व्यवस्था बहाल
- लोगों के बाहर आने-जाने में इजाफा
- उद्योग की वृद्धि में नरमी के संकेत
- वैश्विक मंचों पर ब्रांड इंडिया को बढ़ावा देने का प्रयास है जारी

[↑ Back to Top](#)

होम	मुद्रा
ताजा खबर	विश्लेषण
बाजार समाचार	निवेश
अखबार हेडलाइंस	जिंस
बाजार जानकारी	क्षेत्रीय
कंपनियां	विशेष
अर्थव्यवस्था	

[View Full Site >>](#)

Copyrights © 2022 **Business Standard Private Ltd.** All rights reserved